



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 983) पटना, शुक्रवार, 28 अगस्त 2015

सं0 कारा/नि0को0 (क)—57/11—4686  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग

संकल्प

10 अगस्त 2015

स्व0 रमेश चन्द्र जायसवाल, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया सम्प्रति मृत (दिनांक 20.04.2015) के विरुद्ध “ बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005” में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2452 दिनांक 21.04.2015 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का एतद् द्वारा निस्तार किया जा रहा है।

स्व0 जायसवाल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—9 (1) (ग) एवं 9 (2) (क) में विहित प्रावधानों के तहत कारा निरोध की तिथि दिनांक 10.09.2011 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 4039 दिनांक 22.09.2011 के द्वारा निलंबित किया गया था।

स्व0 जायसवाल को उनके मंडल कारा, बेतिया में पदस्थापन अवधि में दिनांक 10.09.2011 को कारा में छापेमारी की कार्रवाई नहीं करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेतिया सदर को रिश्वत देने का प्रयास करने, जिसके लिए इनके विरुद्ध बेतिया नगर थाना कांड संख्या—444/11 दर्ज कराया गया तथा इन्हें उपकारा, बगहा में संसीमित किया गया एवं इनके विरुद्ध अन्य कतिपय आरोपों के लिए प्रपत्र ‘क’ में आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2452 दिनांक 21.04.2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री जितेन्द्र कुमार, अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया था।

स्व0 जायसवाल दिनांक 29.02.2012 को सेवानिवृत्त हो चुके थे। स्व0 जायसवाल की मृत्यु दिनांक 20.04.2015 को हो गई है।

उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाता है:—

(i) स्व0 जायसवाल को उनके कारावास अवधि के पश्चात् दिनांक 17.11.2011 की तिथि के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ii) स्व0 जायसवाल की निलंबन की तिथि (दिनांक 10.09.2011) तथा मृत्यु की तिथि (दिनांक 20.04.2015) के बीच की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर मानी जायेगी एवं उनके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते का समायोजन कर लिया जायेगा।

(iii) स्व0 जायसवाल की मृत्यु की तिथि (दिनांक 20.04.2015) के एक दिन बाद दिनांक 21.04.2015 को उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञापांक 2452 दिनांक 21.04.2015) को औचित्यहीन होने के आलोक में बंद किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 983-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>